



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण 1946 (श10)

(सं0 पटना 702) पटना, सोमवार, 29 जुलाई 2024

वित्त विभाग
(भविष्य निधि निदेशालय)

अधिसूचना
25 जुलाई 2024

सं0 जी.पी.एफ.—01—123/2023—8013—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “भविष्य निधि निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2015” में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार।—

- (i) यह नियमावली “भविष्य निधि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2024” कही जा सकेगी।
- (ii) यह नियमावली राज्य के भविष्य निधि कार्यालयों के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू होगी। इसका विस्तार संबंधित कार्यालयों के संदर्भ में राज्य स्तरीय होगा।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. “भविष्य निधि निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2015 के नियम-3” का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम 3(1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

“3. संवर्ग—गठन।— (1) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी—

क्र0	कोटि का नाम	स्तर	कुल स्वीकृत संवर्ग बल का प्रतिशत
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि (अराजपत्रित)	50%
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रोन्नति का प्रथम स्तर (अराजपत्रित)	30%
3	प्रधान लिपिक	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर (अराजपत्रित)	15%
4	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	प्रोन्नति का तृतीय स्तर (अराजपत्रित)	05%

3. "भविष्य निधि निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2015 के नियम-5 के उप नियम (1) एवं (2)" का प्रतिस्थापन।—

उक्त नियमावली के नियम 5(1) एवं (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

“(1) निम्नवर्गीय लिपिक के 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अहर्ता रखते हो से, बिना किसी परीक्षा के वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे।

ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अध्यायना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जाएगी।

(2) विलोपित।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनन्द,
सचिव (व्यय)।

25 जुलाई 2024

सं० जी.पी.एफ.—01—123/2023—अधिसूचना संख्या 8013, दिनांक 25 जुलाई 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत—संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनन्द,
सचिव (व्यय)।

The 25th July 2024

No. GPF-01-123/2023-8013— In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "General Provident Fund Directorate and subordinate offices clerical cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2015" (as amended from time to time):-

1. **Short title, extent and commencement:-**

- (i) These Rules may be called the "General Provident Fund Directorate and Subordinate Offices Clerical Cadre (appointment and service conditions) (Amendment) Rule, 2024"
- (ii) These Rules shall apply to the clerical cadre employees of the General Provident Fund Offices of the State of Bihar. In the context of the concerned offices, it shall extent to the state level.
- (iii) It shall come into force at once.

2. **Substitution of "Rule 3 of General Provident Fund Directorate and Subordinate Offices Clerical Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rule, 2015"-** The Rule 3(1) of the said Rule is substituted as stated below:-

"3. **Constitution of the cadre.-** (1) The structure of this cadre will be as follows-

Sl. No	Name of the category	Basic category	Percentage of total sanctioned strength
1	Lower Division Clerk	Basic category (Non-Gazetted)	50%
2	Upper Division Clerk	First promotion level (Non-Gazetted)	30%
3	Head Clerk	Second promotion level (Non-Gazetted)	15%
4	Assistant Administrative Officer	Third promotion level (Non-Gazetted)	05%

3. Substitution of Sub-Rule (1) and (2) of the Rule 5 of the General Provident Fund Directorate and Subordinate Offices Clerical Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rule, 2015- The Sub-Rule (1) and (2) of the Rule 5 of the said Rule is substituted as stated below :-

"(1) The 85 percent posts of Lower Division Clerks shall be filled through direct recruitment and remaining 15 percent posts shall be filled by office Attendent/Attendent (Specific), who holds requisite qualifications required for appointment on the post of Lower Division Clerks, on the basis of their seniority without taking any examination.

The dependents of such government servants, who have died while in service, shall be considered for the appointment on compassionate basis against available vacant posts of direct recruitment, on fulfilling the requisite eligibility criteria, for which recommendation of the Commission shall not be required.

Provided that after the appointment of dependents of the Government servants who have died in service period requisition for rest vacancies of each calendar year shall be sent to the Commission latest by the month of December of that calendar year.

(2) Deleted.

**By the order of the Governor,
DEEPAK ANAND,
Secretary (Expenditure).**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 702-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>